

SHIVALIK

Medical/IIT-JEE/Foundation
NEET & AIIMS/ IIT JEE-2021-23
(Practice Sheet) 1 (XI Appearing)

TOPIC :- The Living World

SUB TOPIC :- Classification

- Who is known as father of Taxonomy ?
(1) Takhtajan (2) Linus
(3) Benthum & Huker (4) Theofrestus
 - The smallest Taxon is known or called :-
(1) Class (2) Order (3) Genus (4) Species
 - Taxon is called
(1) Group of same species
(2) Any category of hierarchy
(3) Group of same Genus
(4) Group of same classes
 - Which is the finest definition of species ?
(1) Group of animals which can live together.
(2) Animals which can Interbreeding
(3) Animal which can Interbreeding
(4) None of these
 - The group of related genus is called :-
(1) Family (2) Phylum (3) Order (4) Class
 - In which of the following has the largest number of organisms.
(1) Genus (2) Family (3) Phylum (4) Class
 - The species word is given by :-
(1) Aristotle (2) Angler (3) John Rey (4) Linus
 - Which is the right Hierarchy ?
(1) Kingdom class phylum, class, order, family
(2) Kingdom, phylum, class, order, family
(3) Kingdom, phylum, order, class, family
(4) Kingdom, Phylum, order, family, class
 - Binomenclature system was given by :-
(1) Carolus linus (2) John Roy (3) Angler (4) Aristotle
 - In which book binomenclature was used first time ?
(1) Historia Planterum (2) Systema nature
(3) Historia Naturelis (4) None of these
 - Which is the right scientific name of Mango ?
- टैक्सोनॉमी का पितामाह किसे माना जाता है ?
(1) तख्ताजन (2) लीनियस
(3) बेन्थम एण्ड हुकर (4) थियोफ्रेस्टस
 - सबसे छोटा टैक्सॉन कहलाता है :-
(1) वर्ग (2) आर्डर (3) वंश (4) जाति
 - टैक्सॉन किसे कहते हैं ?
(1) स्मान जातियों का समूह
(2) वर्गिकी पदानुक्रम में कोई भी श्रेणी
(3) समान वंशों का समूह
(4) समान वर्गों का समूह
 - जाति की सबसे अच्छी परिभाषा कौनसी है ?
(1) जन्तुओं का समूह जो साथ – साथ जीवित रह सकता है।
(2) जन्तु जो कि अन्तराप्रजनन कर सकते हैं।
(3) जन्तु जो अन्तः प्रजनन कर सकते हैं।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।
 - आपस में संबंधित वंशों का समूह कहलाता है :-
(1) कुल (2) संघ (3) गण (4) वर्ग
 - निम्न में से किसमें जीवों की सबसे बड़ी संख्या होती है ?
(1) वंश (2) कुल (3) संघ (4) वर्ग
 - स्पीशीज शब्द किसके द्वारा दिया गया है :-
(1) अरस्तू (2) एंगलर (3) जॉन रे (4) लिनियस
 - निम्न में से कौनसा सही पदानुक्रम है ?
(1) जगत, वर्ग, संघ, गण, कुल
(2) जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल
(3) जगत, संघ, गण, वर्ग, कुल
(4) जगत, संघ, गुण, कुल, वर्ग
 - द्विनाम पद्धति किससे द्वारा दी गई ?
(1) Carolus linus (2) John Roy
(3) Angler (4) Aristotle
 - किस पुस्तक में द्विनामकरण का प्रयोग पहली बार में किया गया।
(1) हिस्टोरिया प्लान्टेरम (2) सिस्टेमा नैचुरी
(3) हिस्टोरिया नैचुरेलिस (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

- (1) *mangifera Indica* (2) *Mangifera indica*
 (3) *Mangifera Indica* (4) All
12. Mayor biological Theory of species is mainly based on :-
 (1) Anatomical characters (2) Reproduction seperation
 (3) Method of reproduction (4) None of these
13. Binomenclature means – organism's name is written with two names which are :-
 (1) Genus & Species (2) Species & Variety
 (3) Order & family (4) Family & Genus
14. The suffix – Phyta indicates :-
 (1) family (2) Order (3) Class (4) Division
15. Which of the following is less general in characters as compared to genus :-
 (1) Species (2) Family (3) Class (4) Division
16. The third name in trinomial nomenclature is :-
 (1) Species (2) Subspecies
 (3) Subgenus (4) Ecotype
17. Two or more species occupying same or overlapping ares are :-
 (1) Sympatric (2) Sibling
 (3) Subspecies (4) Allopatric
18. The number of species on the earth that are known and described range between :-
 (1) 1.4 to 1.5 million (2) 1.6 to 1.7 M
 (3) 1.7 to 1.8 Million (4) 1.9 to 2 Million
19. What are the twin characters of growth ?
 (1) Increase in Mass (2) Increase in number
 (3) Both A & B (4) None of these
20. Growth in living organism is from :-
 (1) Outside (2) Inside (3) Both A & B (4) None of these

11. आम का सही वैज्ञानिक नाम कौनसा है ?
 (1) *mangifera Indica* (2) *Mangifera indica*
 (3) *Mangifera Indica* (4) All
12. जति का मेयर्स बायोलॉजिकल संकल्पना मुख्य रूप से आधारित है :-
 (1) आकारिकी लक्षणों पर (2) प्रजनात्मक पृथक्करण पर
 (3) प्रजनन तरीकों पर (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
13. द्विनाम का अर्थ है जीवों का नाम दो शब्दों में लिखना होता है –
 (1) वंश व जाति (2) जाति व वेरायटी
 (3) ऑर्डर व फेमिली (4) फेमिली व जीनस
14. प्रत्यय – फाइटा दर्शाता है :-
 (1) फेमिली (2) गण (3) वर्ग (4) प्रभाग / संघ
15. निम्न में से कौनसा सामान्य लक्षणों में वंश से कम होता है ?
 (1) जाति (2) फेमिली (3) वर्ग (4) संघ
16. त्रिनाम पद्धति में तीसरा नाम होता है :-
 (1) जाति (2) उप – जाति (3) उपवंश (4) पारिस्थितिक
17. दो या दो से अधिक जातियाँ जो समान या अतिव्यापी है :-
 (1) समपैतृक (2) भाईचारा / जुडवा
 (3) उप – जातियाँ (4) एलोपेट्रिक
18. पृथ्वी पर कितनी संख्या में जातियाँ वर्णित की गई है :-
 (1) 1.4 to 1.5 million
 (2) 1.6 to 1.7 M
 (3) 1.7 to 1.8 Million
 (4) 1.9 to 2 Million
19. वृद्धि के दो संयुक्त लक्षण कौनसे हैं ?
 (1) द्रव्यमान में बढ़ना (2) संख्या में बढ़ना
 (3) A व B दोनों (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
20. सजीवों में वृद्धि परिणाम है :-
 (1) बाहरी (2) आन्तरिक (3) A व B दोनो (4) कोई नहीं

SHIVALIK

Medical/IIT-JEE/Foundation
NEET & AIIMS/ IIT JEE-2020-22
(Practice Sheet) 1 (XI Appearing)

ANSWER SHEET

Question	1	2	3	4	5
Answer	2	4	2	3	1
Question	6	7	8	9	10
Answer	3	4	2	1	2
Question	11	12	13	14	15
Answer	2	2	1	4	1
Question	16	17	18	19	20
Answer	2	1	3	3	3